

Date: October 26, 2019

National Stock Exchange of India Limited  
Exchange Plaza  
C-1, Block G, Bandra Kurla Complex,  
Bandra (E), Mumbai-400051

BSE Limited  
Phiroze Jeejeebhoy Towers  
Dalal Street  
Mumbai-400001

NSE Symbol: SIS

BSE Code: 540673

Dear Sir/Madam,

**Sub.: Newspaper advertisement – Financial Results for Q2 & H1 FY20**

Pursuant to the provisions of Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, please find enclosed the advertisements published in Financial Express and Business Standard newspapers related to un-audited financial results of the Company for the quarter and half-year ended September 30, 2019.

This is for your information and records.

Thanking you.

Yours Faithfully,

For **Security and Intelligence Services (India) Limited**



**Pushpalatha K**  
Company Secretary





# Fitch cuts India's FY20 GDP forecast to 5.5%

Fitch said the recent government measures to boost economy, including a cut in corporate tax rates, would gradually nudge growth

in April 2019, said the recent government measures to boost economy including a cut in corporate tax rates will gradually nudge growth.

The projection is lower than 6.1% that the Reserve Bank of India (RBI) had forecast in early October.

GDP expansion will pick up to 6.2% in the next financial year (2020-21) and to 6.7% in the year after, Fitch said.

The Indian economy decelerated for the fifth consecutive quarter

in April-June, with GDP expanding by a meagre 5%, down from 8% recorded a year earlier. This is the lowest growth outturn since 2013.

"Weakness has been fairly broad-based, with both domestic

spending and external demand losing momentum," Fitch said. "The Indian economy is being held back by a large squeeze in credit availability emanating from non-bank financial companies (NBFCs)."

PRESS TRUST OF INDIA  
New Delhi, October 24

FITCH RATINGS ON Thursday slashed India's GDP growth forecast in the current fiscal to 5.5% saying a large credit squeeze emanating from shadow banks has pushed economic growth to a six-year low.

Fitch, which had in June this year put India's GDP growth at 6.6% for the fiscal year that



## IIM Lucknow

### MANAGEMENT DEVELOPMENT PROGRAMMES

NAME OF PROGRAMME	DATE	VENUE
<b>NOVEMBER 2019</b>		
Digital Transformation of Supply Chain	7-9	Noida
Leadership Development	11-13	Lucknow
How to Integrate Product and Brand with Marketing Strategy	11-14	Lucknow
Financial Analysis and Valuation for Strategic Decision Making	18-21	Lucknow
Strategic Leadership in Uncertain Environment	18-21	Lucknow
Agriculture Input Marketing	18-22	Lucknow
Effective Contract Management and Negotiation	25-27	Noida
Creativity, Problem-Solving and Decision Making	25-29	Lucknow
Strategic Human Resource Management	27-29	Lucknow
<b>DECEMBER 2019</b>		
Managerial Decision Making under Uncertain Environment	2-4	Lucknow
Inspired Leadership	2-6	Lucknow
General Management Programme	2-13	Lucknow
Digital Marketing	4-8	Noida
Business Data Analytics for Marketing Decisions	9-13	Lucknow
Financing and Valuation of New Ventures and Start-ups	16-18	Noida
Managing Self for Leadership Excellence	16-18	Mumbai



For details please visit <http://www.iiml.ac.in/admission/mdp/mdpCalendar> or write to Sr. Administrative Officer (MDP)  
**Indian Institute of Management Lucknow**  
 Prabandh Nagar, IIM Road, Lucknow 226 013. Phone: 0522-6696288 - 3/2  
 Fax : 0522-2734026/5, Email: [mdpoffice@iiml.ac.in](mailto:mdpoffice@iiml.ac.in); [mdp@iiml.ac.in](mailto:mdp@iiml.ac.in)

## Festival Bonanza

A RED initiative appears in today's edition of Financial Express. These pages are an initiative of the marketing solutions team of The Indian Express Group and contain content paid for by advertisers. These pages should be read as an advertisement.

## GURGAON

### INDUSTRIAL PROPERTY


**UDYOG VIHAR / IMT MANESAR**  
**INFOCITY / PACE CITY**  
**DHARUHERA / BAWAL**

**PLOT FOR SALE**  
 250, 450, 1000, 4000 Sq.Mtr  
 2 Acre, 5 Acre, 10 Acre

**WAREHOUSE SALE / RENT**  
 2 Lac to 5 Lac Sq. Ft Height 25 to 50 feet

**BUILT-UP FOR RENT**  
 5000, 10000, 30000, 50000 to 5 Lac Sq. Ft.


**NARESH**  
**9810235126, 9810235116**



## RISING HIMACHAL


### INVESTORS' HAVEN

GLOBAL INVESTORS MEET  
 07-08 NOVEMBER 2019  
 DHARAMSHALA




**Shri Jai Ram Thakur**  
 Chief Minister, Himachal Pradesh

Welcome to the land of lucrative investments.  
 Welcome to Himachal!




### Advantage Himachal


- Power surplus state with lowest power tariff
- Proactive & supportive government
- Harmonious industrial relations
- Empowering policies and incentives for the investors
- Salubrious environment for high productivity




Economic Diplomacy & States Division  
**Ministry of External Affairs**  
 Partner Ministry



**Ministry of Commerce & Industry**  
 Partner Ministry

Follow us on 



## Security and Intelligence Services (India) Limited

### A MARKET LEADER IN SECURITY, CASH LOGISTICS AND FACILITY MANAGEMENT SERVICES

**Security and Intelligence Services (India) Limited**  
 Registered office: Annapoorna Bhawan, Telephone Exchange Road, Kurji, Patna - 800010  
 CIN: L75230BR1985PLC002083

I. Extracts of unaudited consolidated financial results for the quarter and six months ended September 30, 2019  
 (₹ in millions except per share data)

Particulars	Quarter ended September 30, 2019	Six months ended September 30, 2019	Quarter ended September 30, 2018
	(Unaudited)	(Unaudited)	(Unaudited)
Total income from operations	20,888.58	40,972.53	16,902.10
Net profit for the period (before tax and exceptional items)	512.64	1,073.38	442.07
Net profit for the period before tax (after exceptional items)	512.64	1,073.38	442.07
Net profit for the period after tax (after exceptional items)	761.67	1,510.81	437.84
Total comprehensive income for the period (comprising profit for the period after tax and other comprehensive income after tax)	599.74	1,327.62	574.78
Equity share capital	733.18	733.18	733.00
Other equity	12,835.49	12,835.49	10,668.10
Earnings per share (of ₹ 10/- each) (for continued and discontinued operations) -	(Not annualised)	(Not annualised)	(Not annualised)
1. Basic:	10.39	20.62	5.98
2. Diluted:	10.23	20.29	5.89

II. Financial Results (Standalone Information)  
 (₹ in millions)

Particulars	Quarter ended September 30, 2019	Six months ended September 30, 2019	Quarter ended September 30, 2018
	(Unaudited)	(Unaudited)	(Unaudited)
Total income from operations	7,471.55	14,356.41	6,044.99
Profit before tax	304.26	531.02	177.45
Total comprehensive income for the period	507.64	1,001.76	263.29

Notes:  
 1. The above is an extract of the detailed format of financial results for the quarter and six months ended September 30, 2019, filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Quarterly/Annual Financial Results are available on the websites of the National Stock Exchange of India Limited ([www.nseindia.com](http://www.nseindia.com)) ("NSE"), BSE Limited ([www.bseindia.com](http://www.bseindia.com)) ("BSE") and the Company ([www.sisindia.com](http://www.sisindia.com)).  
 2. The statement of unaudited consolidated financial results ("the Statement") of the Group, its associates and its jointly controlled entities for the quarter and six months ended September 30, 2019, has been reviewed by the Audit Committee and, thereafter, approved by the Board of Directors in its meeting held on October 24, 2019.  
 3. Effective April 1, 2019, the Group adopted Ind AS 116 "Leases", using the modified retrospective method and has taken the cumulative adjustment to retained earnings, on the date of initial application. Accordingly, the comparatives have not been retrospectively adjusted. On transition, the adoption of the new standard resulted in recognition of Right of use asset ('RoU') of ₹ 868.73 million and a lease liability of ₹ 1,035.79 million. The cumulative effect of applying the standard resulted in ₹ 71.14 million being debited to retained earnings, net of taxes. The effect of this adoption is not significant on the profit for the period and earnings per share.

For and on behalf of the Board of Directors of  
**Security and Intelligence Services (India) Limited**  
 Rituraj Sinha  
 Group Managing Director

Place: New Delhi  
 Date: October 24, 2019

[www.sisindia.com](http://www.sisindia.com)



# डीएचएफएल के परिसमापन के विकल्प पर विचार कर रहे लेनदार


हंसिनी कार्तिक मुंबई, 24 अक्टूबर

दीवान हाउसिंग फाइनेंस कॉरपोरेशन (डीएचएफएल) की परिसंपत्तियों की गुणवत्ता पर बढ़ती कयासबाजी को देखते हुए लेनदार अपना बकाया वसूलने के लिए वैकल्पिक तरीका अपनाने पर विचार कर रहे हैं। एक सूत्र ने कहा, अपना बकाया कर्ज को डीएचएफएल को इक्विटी में बदलने के मामले में लेनदार सतर्क हो गए हैं।

ऐसे में समझा जाता है कि लेनदार कंपनी से अपना बकाया वसूलने के लिए प्लान-बी पर काम कर रहे हैं और अपना बकाया वसूलने के लिए डीएचएफएल के परिसमापन या उसकी परिसंपत्तियां खरीदने के विकल्प पर विचार कर रहे हैं। एनसीडी समेत बैंकों का कुल बकाया 47,000 करोड़ रुपये है जबकि सुरक्षित लेनदारों मसलन म्युचुअल फंडों व खुदरा एनसीडीधारकों का करीब 17,000 करोड़ रुपये बकाया है। डीएचएफएल के पास 90,000 करोड़ रुपये की परिसंपत्तियां हैं और उसके खाते में खुदरा होमलोन की हिस्सेदारी करीब 50 फीसदी है।

एक सूत्र ने कहा, लेनदार अभी फॉरेंसिक ऑडिट रिपोर्ट पर कंपनी के जवाब की प्रतीक्षा कर रहे हैं और अपना बकाया वसूलने के लिए वैकल्पिक उपायों पर फैसला अगले दो या तीन हफ्तों में होगा जब बैंक डीएचएफएल को दिए कर्ज पर प्रावधान करना शुरू करेंगे। डीएचएफएल को ज्यादातर बैंकों ने सितंबर तिमाही तक मानक परिसंपत्ति के तौर पर वर्गीकृत किया है, वहीं दिसंबर तिमाही में यह स्थिति बदल सकती है जब बैंकों को डीएचएफएल के कर्ज के हिसाब से 15 फीसदी प्रावधान करना पड़ सकता है। सूत्रों ने कहा कि गैर-लेनदारों ने बैंकों को अपनी सहमति दे दी है कि सभी लेनदारों के बकाए के निपटान के लिए डीएचएफएल की परिसंपत्तियां का परिसमापन

## समाधान की तलाश



लेनदार अभी फॉरेंसिक ऑडिट रिपोर्ट पर कंपनी के जवाब की प्रतीक्षा कर रहे हैं

अपना बकाया वसूलने के लिए वैकल्पिक उपायों पर फैसला अगले दो या तीन हफ्तों में होगा जब बैंक डीएचएफएल को दिए कर्ज पर प्रावधान करना शुरू करेंगे

एनसीडी समेत बैंकों का कुल बकाया 47,000 करोड़ रुपये है जबकि सुरक्षित लेनदारों मसलन म्युचुअल फंडों व खुदरा एनसीडीधारकों का करीब 17,000 करोड़ रुपये बकाया है

निश्चित रूप से होना चाहिए। म्युचुअल फंड हाउस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, जब तक डीएचएफएल की परिसंपत्तियों की बिक्री से मूलधन का उचित हिस्सा मिल जाएगा तो हमारे लिए यह ठीक रहेगा।

एक सूत्र ने कहा, समझा जाता है कि बैंक अब अपने बकाए का एक हिस्सा इक्विटी में बदलने के मामले में चिंतित हो गए हैं। जब तक इसकी पुष्टि नहीं होती कि दिलचस्पी वाले प्राइवेट इक्विटी निवेशक की तर्फ से बैंक की डीएचएफएल में हिस्सेदारी कर्ज को इक्विटी में बदलने के 6 से 9 महीने के भीतर नहीं खरीदने की पुष्टि नहीं होती, बैंक प्रस्तावित समाधान योजना पर अपनी सहमति शायद नहीं देंगे।

प्रस्तावित समाधान योजना के मुताबिक, बैंक अपने बकाए का दो फीसदी इक्विटी में बदलने के लिए तैयार हैं। इस तरह से करीब 6,000 करोड़ रुपये का कर्ज इक्विटी में बदलेगा। बैंकों

ने डीएचएफएल को दिलचस्पी रखने वाले पीई फर्म से बातचीत करने को कहा है कि यह रकम (6,000 करोड़ रुपये) एस्को खाते में जमा कराई जानी चाहिए कि निवेशक ने डीएचएफएल की बहुलांश हिस्सेदारी खरीदने के लिए कंपनी से बाध्यकारी करार कर लिया है।

बैंक इस पर सहमत हैं कि पीई निवेशक व डीएचएफएल के बीच सौदे की शर्तें कुछ निश्चित दृष्टांत के साथ हो और वे उनके कारोबार को विनियमित करने में मदद के इच्छुक हैं। लेकिन वे निवेशक से सही मायने में प्रतिबद्धता चाहते हैं।

पहले खबर मिली थी कि एयॉन कैपिटल डीएचएफएल की 51 फीसदी हिस्सेदारी लेने की इच्छुक है। हालांकि संपर्क किए जाने के बाद एयॉन कैपिटल ने इस पर टिप्पणी करने से मना कर दिया। डीएचएफएल से जानकारी के लिए भेजे गए ईमेल का जवाब भी नहीं मिला।

# अंकेक्षकों की भूमिका जांचेगा सेबी, आरबीआई

नियामक जांच करेंगे कि डीएचएफएल की रकम की हेराफेरी वर्षों तक कैसे छुपी रही

देव चटर्जी मुंबई, 24 अक्टूबर

बाजार नियामक सेबी और भारतीय रिजर्व बैंक यह समझने के लिए अंकेक्षण फर्म टी पी ओस्टवाल की राय जानने की योजना बना रहा है कि ऑडिट फर्म ने इस साल मार्च में दीवान हाउसिंग फाइनेंस कॉरपोरेशन (डीएचएफएल) को कैसे क्लिन चिट दे दी, जब मीडिया वेबसाइट कोबरापोस्ट ने खुलासा किया था कि डीएचएफएल के प्रवर्तकों ने कंपनी से रकम की हेराफेरी की है।

कोबरापोस्ट के खुलासे के कुछ ही दिन के भीतर ओस्टवाल को डीएचएफएल बोर्ड में नियुक्त किया गया था। ओस्टवाल की रिपोर्ट 5 मार्च को डीएचएफएल ने स्टॉक एक्सचेंजों के साथ साझा किया और तब से डीएचएफएल का शेयर लगातार टूट रहा है और उसके शेयरधारकों ने 86 दिन हुई गिरावट के कारण अपने बाजार कीमत में 3,600 करोड़ रुपये गंवा दिए।

जुलाई में युनियन बैंक ऑफ इंडिया की तर्फ से शुरू हुए फॉरेंसिक ऑडिट और केपीएमजी के फॉरेंसिक ऑडिट में पुष्टि हुई कि प्रवर्तकों ने 20,000 करोड़ रुपये की हेराफेरी की है और कई मामलों में डीएचएफएल की तर्फ से 40 इकाइयों को दी गई उधारी का सही रिकॉर्ड भी नहीं रखा गया। नियामक डेलायट की भी राय चाहेगा जो 2015 से 2019 के दौरान डीएचएफएल की अंकेक्षक थी, जब फॉरेंसिक ऑडिट हुआ था। संपर्क किए जाने पर ओस्टवाल ने टिप्पणी करने से मना कर दिया।

अपनी रिपोर्ट में टी पी ओस्टवाल एंड एसोसिएट्स ने 26 संबंधित इकाइयों को 11,520

## डीएचएफएल : घटनाक्रम

**जनवरी 2019** : कोबरापोस्ट ने डीएचएफएल पर रकम की हेराफेरी का आरोप लगाया, डीएचएफएल ने इसकी जांच के लिए स्वतंत्र अंकेक्षक की नियुक्ति की

**मार्च 2019** : ऑडिट फर्म टी पी ओस्टवाल ने डीएचएफएल व प्रवर्तकों को क्लिन चिट दी

**जुलाई 2019** : बैंकों ने वित्त वर्ष 2015 से वित्त वर्ष 2019 के डीएचएफएल के खाते के अध्ययन के लिए केपीएमजी को नियुक्त किया

**अक्टूबर 2019** : केपीएमजी ने डीएचएफएल से रकम की हेराफेरी की पुष्टि की

करोड़ रुपये कर्ज दिए जाने के मामले में क्लीन चिट दी है। टी पी ओस्टवाल एंड एसोसिएट्स ने रिपोर्ट में कहा है, कंपनी ने कथित तौर पर 26 मुखौटा कंपनियों का प्रवर्तन नहीं किया है, जो उसके कर्जदार हैं। इसके अलावा उन इकाइयों में प्रवर्तक समूह के सदस्य समेत कोई भी एकसमान निदेशक नहीं हैं। इसके अलावा कंपनी या प्रवर्तकों के पास इन कंपनियों की कोई हिस्सेदारी नहीं है, न ही ये इकाइयां कंपनी की शेयरधारक हैं। इसके मुताबिक आरोपों की पुष्टि करने के लिए संकेतक नहीं हैं कि कंपनी ने रकम की हेराफेरी के लिए मुखौटा कंपनियों का गठन किया। जून में हॉनग कांग की शोध फर्म

रीड इंटेलिजेंस ने कहा कि संबंधित पक्षकारों को दिए गए फंड छुपाने के लिए डीएचएफएल समेत कई भारतीय एनबीएफसी ने बैंक्स कंपनियों गठित की। 7 जून की रिपोर्ट में रीड इंटेलिजेंस ने कहा कि अन्य एनबीएफसी ने भी कर्ज के रोलओवर के लिए ऐसे ही ढांचे का इस्तेमाल किया और प्राधिकरण या शेयरधारकों को इसकी सूचना नहीं दी, जो सेबी व आरबीआई के खुलासा नियमों का उल्लंघन है।

डीएचएफएल के मामले में तीन बैंक्स कंपनियां हैं - हेमिस्फेयर, गैलेक्सी और सिलिकन। तीन बैंक्स कंपनियों के पास मार्च 2018 में डीएचएफएल के 3.11 करोड़ शेयर यानी डीएचएफएल की करीब 9 फीसदी हिस्सेदारी थी और इन शेयरों को बाजार में बेच दिया गया। पूरे साल तीनों कंपनियों ने शेयर बेचे और इस तरह से जून के आखिर तक 40 लाख शेयर निपटाए और सितंबर तक उनकी हिस्सेदारी 76.5 लाख शेयर और कम हो गई, साथ ही मार्च 2019 तक रजिस्टर में यह नजर नहीं आया।

रीड ने कहा कि जब कंपनियां ऐसे ढांचे का इस्तेमाल करती हैं तब खाता बही की जांच करने वाले अंकेक्षकों के लिए इसके वास्तविक लाभार्थी का पता लगाना मुश्किल होता है। उसने कहा है कि डीएचएफएल ने चार छद्म कंपनियों अलीन रियल एस्टेट डेवलपर्स, एडविना रियल एस्टेट प्राइवेट लिमिटेड, नोशन रियल एस्टेट प्राइवेट लिमिटेड और प्रशुल रियल एस्टेट प्राइवेट लिमिटेड को 2,000 करोड़ रुपये उधार दिए। इन कंपनियों ने बाद में दर्शन डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड के शेयर खरीदे, जो वधावन रियल्टर्स प्राइवेट लिमिटेड की सहायक है और इसका स्वामित्व संस्थापकों के पास है।

# बीमा फर्मों के शेयरों पर विदेशी निवेशकों का तेजी का नजरिया

दीपक कोरागांवकर और पुनीत वाधवा मुंबई/नई दिल्ली, 24 अक्टूबर

विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों ने हाल में समाप्त तिमाही में बीमा कंपनियों के शेयर खरीदे हैं और इस अवधि में इन कंपनियों में उनकी हिस्सेदारी 1 से चार फीसदी तक बढ़ी है। कैलेंडर वर्ष 2019 में एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस में एफपीआई की हिस्सेदारी बढ़कर 23.72 फीसदी पर पहुंच गई, जो दिसंबर 2018 की तिमाही के आखिर में 4.87 फीसदी थी। आईसीआईसीआई लोम्बार्ड में उनकी हिस्सेदारी 12.22 फीसदी से बढ़कर 20.84 फीसदी और एचडीएफसी लाइफ में 8.23 फीसदी से बढ़कर 15.94 फीसदी पर पहुंच गई। आंकड़ों से यह जानकारी मिली।

इन शेयरों पर एफपीआई के तेजी के नजरिये के कारण इनमें इस साल अब तक एक्सचेंजों में 50 से 65 फीसदी तक की बढ़ोतरी दर्ज हुई है। बीएसई पर इनमें से ज्यादातर शेयर अभी अपने-अपने सर्वोच्च स्तर पर कारोबार कर रहे हैं। इसकी तुलना में एसएंडपी बीएसई सेंसेक्स इस अवधि में 8 फीसदी उछला है।

जेपी मॉर्गन के विश्लेषकों को भरोसा है कि आगामी दिनों में भारत की जीवन बीमा कंपनियां नए कारोबारी में मजबूती दर्ज करेगी और इनके बढ़त का परिदृश्य आगामी 10 वर्षों के लिए बेहतर है क्योंकि बीमा का प्रसार कम है। हालांकि निकट भविष्य में उन्हें नए कारोबार की कीमत में नरमी की संभावना है क्योंकि प्रीमियम की रफ्तार में नरमी शुरू हो गई है।

कोटक इंस्टिट्यूशनल



बीमा शेयरों में एफपीआई का निवेश वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही में नई ऊंचाई पर पहुंचा

इक्विटीज की हालिया रिपोर्ट में कहा गया है कि वैयक्तिक सालाना प्रीमियम समकक्ष (एपीई) वास्तव में सितंबर 2019 की तिमाही में नरम हुआ है। कोटक के मुताबिक, निजी क्षेत्र की कंपनियों ने सितंबर तिमाही में कुल एपीई में सालाना

आधार पर 3 फीसदी की बढ़ोतरी दर्ज की है और वैयक्तिक एपीई की रफ्तार 3 फीसदी रही है। कुल वैयक्तिक उद्योग एपीई सालाना आधार पर 3 फीसदी घटी है क्योंकि एलआईसी ने सालाना आधार पर 11 फीसदी की भारी गिरावट


दर्ज की है। कोटक की रिपोर्ट में कहा गया है, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ का एपीई लगातार तीसरे महीने घटा है, हालांकि इसकी रफ्तार सुस्त रही है। यहां तक कि उच्च बढ़त वाली एचडीएफसी लाइफ में लगातार पांच महीने तक उच्च बढ़त के बाद गिरावट दर्ज हुई है। एसबीआई लाइफ और मैक्स

लाइफ में लगातार दूसरे महीने में नरमी जारी रही। कैलेंडर वर्ष 2019 में अच्छी खासी तेजी के बावजूद निवेश रणनीति के तौर पर हालांकि ज्यादातर ब्रोकरेज फर्मों का नजरिया इन शेयरों को लेकर तेजी का है और उनका सुझाव है कि लंबी अवधि के लिए निवेशक इन शेयरों को गिरावट में खरीदें।

# मशीनीकृत कोयला परिवहन पर बड़ा निवेश करेगी कोल इंडिया

अधिके रक्षित कोलकाता, 24 अक्टूबर

कोल इंडिया ने अपनी बड़ी खदानों से पाइप कन्वेयर बेल्ट के जरिए कोयले के पूरी तरह से मशीनीकृत परिवहन पर अगले पांच साल में अनुमानित तौर पर 17,500 करोड़ रुपये निवेश करेगी। साल 2023-24 तक होने वाला यह काम सड़क के जरिए कोयले के परिवहन को पूरी तरह से बदल देगा। कुछ खदानों में यह व्यवस्था पहले से ही है, लेकिन बड़े पैमाने पर इसे नहीं अपनाया गया है।



**PNB Housing Finance Limited**

**Ghar Ki Baat**

Regd. Office: 9<sup>th</sup> Floor Antriksh Bhawan, 22 K. G. Marg, New Delhi-110001  
CIN: L65922DL1988PLC033856

**Disclosures in compliance with Regulation 52 (4) of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 for the half year ended September 30, 2019**


- The Secured Redeemable Non-Convertible Debentures (NCDs) issued by the Company have been assigned highest rating by CARE Rating of 'CARE AA+' and India Ratings and Research IND 'AA+', both with stable outlook.
- Asset cover available as on September 30, 2019, in case of the NCDs issued by the Company: 1.03 times
- Debt Equity Ratio as on September 30, 2019: 8.97 times
- The Company has paid interest and principal on NCDs on due dates. Details of payment of interest/principal on the Secured Redeemable Non-Convertible Debentures as required under Regulation 52(4)(d) and Regulation 52(4)(e) of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 is provided in Annexure-A.1
- Debt service coverage ratio as on September 30, 2019: 1.16 times
- Paid up debt capital/Outstanding debt: ₹18,867.70 Crores
- Interest service coverage ratio as on September 30, 2019: 1.29 times
- Outstanding Redeemable Preference Shares: NIL
- Debt Redemption Reserve as on September 30, 2019: NIL
- Net worth as on September 30, 2019: ₹8,007.87 Crores
- Net Profit after tax: ₹710.34 Crores
- Earnings per shares (EPS): Basic EPS ₹42.29 and Diluted EPS ₹42.17

**Annexure - A.1**

**Details of payment of interest/principal on the Secured Redeemable Non-Convertible Debentures in accordance with Regulation 52(4)(d) and Regulation 52(4)(e) of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015**

S. No.	NCD Series	ISIN	Previous Due Date		Interest		Principal	
			(April 1, 2019 to September 30, 2019)	(October 1, 2019 to March 31, 2020)	(October 1, 2019 to March 31, 2020)	(October 1, 2019 to March 31, 2020)		
			Due date for Interest payment	Due date for Principal repayment	Due date for Interest payment	Amount (in ₹ Crore)	Due date for Principal repayment	Amount (in ₹ Crore)
1	Series VIIIB	INE572E09072	30.09.2019	-	16.01.2020	0.81	16.01.2020	30.00
2	Series VIIC	INE572E09080	30.09.2019	-	31.03.2020	1.38	-	-
3	Series VIID	INE572E09098	30.09.2019	-	31.03.2020	1.38	-	-
4	Series VIIE	INE572E09106	30.09.2019	-	31.03.2020	1.38	-	-
5	Series IXB	INE572E09130	30.09.2019	-	09.11.2019	1.18	09.11.2019	125.00
6	Series X	INE572E09148	30.09.2019	-	31.03.2020	9.50	-	-
7	Series XI	INE572E09155	30.09.2019	-	31.03.2020	9.55	-	-
8	Series XII	INE572E09163	30.09.2019	-	31.03.2020	13.88	-	-
9	Series XIII	INE572E09171	30.09.2019	-	31.03.2020	9.15	-	-
10	Series XIV	INE572E09189	30.09.2019	-	31.03.2020	9.00	-	-
11	Series XV	INE572E09205	30.09.2019	-	31.03.2020	25.74	-	-
12	Series XVII-B	INE572E09239	30.09.2019	-	31.03.2020	14.22	-	-
13	Series XX	INE572E09270	30.09.2019	-	31.03.2020	30.07	-	-
14	Series XXI	INE572E09288	30.09.2019	-	31.03.2020	29.96	-	-
15	Series XXII	INE572E09296	09.04.2019	09.04.2019	-	-	-	-
16	Series XXIII	INE572E09304	30.09.2019	-	31.03.2020	20.48	-	-
17	Series XXIV	INE572E09312	12.07.2019	12.07.2019	-	-	-	-
18	Series XXV	INE572E09338	30.09.2019	-	31.03.2020	20.83	-	-
19	Series XXVI	INE572E09356	30.09.2019	-	31.03.2020	20.03	-	-
20	Series XXVII	INE572E09353	30.09.2019	-	31.03.2020	12.50	-	-
21	Series XXVIII-A	INE572E09361	30.09.2019	-	31.03.2020	62.00	-	-
22	Series XXVIII-B	INE572E09379	28.06.2019	28.06.2019	-	-	-	-
23	Series XXIX	INE572E09387	-	-	18.10.2019	2.96	18.10.2019	800.00
24	Series XXX	INE572E09403	30.09.2019	-	31.03.2020	9.89	-	-
25	Series XXXI	INE572E09411	30.09.2019	-	31.03.2020	38.23	-	-
26	Series XXXII	INE572E09429	-	-	31.03.2020	24.96	-	-
27	Series XXXIII	INE572E09437	-	-	31.03.2020	23.70	-	-
28	Series XXXIV-A	INE572E09445	15.06.2019	15.06.2019	-	-	-	-
29	Series XXXIV-B	INE572E09452	-	-	31.03.2020	38.15	-	-
30	Series XXXV	INE572E09460	14.07.2019	-	-	-	-	-
31	Series XXXVI-A	INE572E09478	31.07.2019	-	-	-	-	-
32	Series XXXVI-B	INE572E09486	31.07.2019	-	-	-	-	-
33	Series XXXVII	INE572E09478	31.07.2019	-	-	-	-	-
34	Series XXXVIII	INE572E09502	31.08.2019	05.09.2019	-	-	-	-
35	Series XXX	INE572E09528	26.09.2019	-	-	-	-	-
36	Series XLI-A	INE572E09536	-	-	31.10.2019	5.33	31.10.2019	860.00
37	Series XLI-B	INE572E09544	-	-	31.12.2019	9.41	-	-
38	Series XLII	INE572E09569	-	-	15.03.2020	39.42	-	-
39	Series XLIII-A	INE572E09577	-	-	28.02.2020	187.67	28.02.2020	500.00
40	Series XLV	INE572E09288	30.09.2019	-	31.03.2020	4.07	-	-
41	Series XLVI	INE572E09288	30.09.2019	-	31.03.2020	3.89	-	-
42	Series XLVII	INE572E09288	30.09.2019	-	31.03.2020	4.07	-	-
43	Series XLVIII-B	INE572E09619	30.08.2019	-	-	-	-	-
44	Series XLIX	INE572E07050	28.08.2019	-	28.02.2020	10.30	-	-
45	Series II-Tier II	INE572E09197	30.09.2019	-	31.03.2020	9.70	-	-
46	Series III-Tier II	INE572E09262	30.09.2019	-	31.03.2020	8.22	-	-
47	Series IV-Tier II	INE572E09320	30.09.2019	-	31.03.2020	8.84	-	-
48	Series V-Tier II	INE572E09346	30.09.2019	-	31.03.2020	12.17	-	-
49	Series VI-Tier II	INE572E09387	30.09.2019	-	31.03.2020	21.38	-	-
50	Series VII-Tier II	INE572E09627	-	-	07.01.2020	2.32	-	-
51	Series VIII-Tier II	INE572E09627	-	-	07.01.2020	1.41	-	-

\*Amount of premium payable on redemption of zero coupon bond



**A MARKET LEADER IN SECURITY, CASH LOGISTICS AND FACILITY MANAGEMENT SERVICES**

**Security and Intelligence Services (India) Limited**

Registered office: Annapoorna Bhawan, Telephone Exchange Road, Kurji, Patna - 800010  
CIN: L75230BR1985PLC002083

**I. Extracts of unaudited consolidated financial results for the quarter and six months ended September 30, 2019**

(₹ in millions except per share data)

Particulars	Quarter ended September 30, 2019	Six months ended September 30, 2019	Quarter ended September 30, 2018
	(Unaudited)	(Unaudited)	(Unaudited)
Total income from operations	20,888.58	40,972.53	16,902.10
Net profit for the period (before tax and exceptional items)	512.64	1,073.38	442.07
Net profit for the period before tax (after exceptional items)	512.64	1,073.38	442.07
Net profit for the period after tax (after exceptional items)	761.67	1,510.81	437.84
Total comprehensive income for the period (comprising profit for the period after tax and other comprehensive income after tax)	599.74	1,327.62	574.78
Equity share capital	733.18	733.18	733.00
Other equity	12,835.49	12,835.49	10,668.10
Earnings per share (of ₹ 10/- each) (for continued and discontinued operations) -	(Not annualised)	(Not annualised)	(Not annual